




केन्द्रीय विद्यालय गांधीग्राम डिंडीगुल

स्वतंत्रता की ओर

कठिन शब्द

1. आश्रम
2. योजना
3. बुध्दू
4. भजन
5. धुआँ
6. समुद्र
7. नमक
8. विरोध
9. अन्याय
10. निश्चय
11. पैदल
12. खबर
13. गौशाला
14. झोपड़ी

नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर . या  लगाओ

1. धुआ - धुआँ
2. कुआ- कुआँ
3. फूक - फूँक
4. कहा - कहाँ
5. स्वतत्र - स्वतंत्र
6. बाध - बांध
7. आख - आँख
8. मा - माँ
9. गाव - गाँव
10. इतजार - इंतजार
11. पसद - पसंद

शब्दार्थ

1. देखभाल - ध्यान
2. पसंद - चाह
3. समुद्र - सागर
4. जवाब- उत्तर
5. अखबार - समाचार पत्र
6. पेड़ - वृक्ष
7. सुबह - सवेरा

रिक्त स्थान भरो

1. धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना।
2. गांधीजी भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे।
3. धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही थी ।
4. दांडी पहुँचकर वे नमक बनाएँगे ।
5. गांधीजी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकलते हैं।

प्रश्नों के उत्तर लिखो

प्रश्न : 1) गांधीजी के आश्रम का नाम क्या था?

उत्तर : गांधीजी के आश्रम का नाम साबरमती था।

प्रश्न : 2) धनी कौन था और कहाँ रहता था?

उत्तर : धनी नौ साल का लड़का था और वह गांधीजी के साबरमती आश्रम में रहता था ।

प्रश्न : 3) आश्रम के लोग क्या- क्या काम करते थे ?

उत्तर : आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई न कोई काम करना होता है जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएँ से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना।

प्रश्न : 4) धनी आश्रम में कौन- सा काम करता था?

उत्तर : धनी आश्रम मे बिन्नी नाम के बकरी का देखभाल करता था।

प्रश्न : 5) गांधीजी आश्रम के लोगों के साथ दांडी क्यों जा रहे थे?

उत्तर : गांधीजी आश्रम के लोगों के साथ दांडी नमक बनाने के लिए जा रहे थे।

प्रश्न : 6) छह जानवरों के नाम लिखो जो घास- फूस खाते हैं?

उत्तर : गाय, भैंस , हिरण, खरगोश , घोडा और भेड़।

प्रश्न : 7) कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनसे हमे दूध मिलता है?

उत्तर : गाय , भैंस , बकरी और भेड़ से हमे दूध मिलता है।

प्रश्न : 8) चूल्हे मे लकड़ियाँ जलाई जाती है। कुछ और चीजों के नाम लिखो जिनके द्वारा खाना पकाया जा सकता है?

उत्तर :

- i. स्टोव (कैरोसिन तेल)
- ii. गैस चूल्हा
- iii. बिजली का चूल्हा
- iv. अंगीठी
- v. माइक्रोवेव चूल्हा

विशेषण

जो शब्द किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ खास बताए उसे विशेषण कहते हैं।

विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो :

1.	ऊँचा	पेड़
2.	मीठा	हलवा
3.	सफेद	नमक
4.	बड़ा	पत्थर
5.	काली	चींटी
6.	तिरंगा	झण्डा
7.	रसीला	आम
8.	ठंडा	शरबत
9.	लंबा	कुरता
10.	पुराना	दोस्त

रचनात्मक लेखन



महात्मा गांधीजी के बारे में लिखिए

गांधीजी को हम प्यार से बापू कहते हैं।

उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर (गुजरात) में हुआ था ।

उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था ।

उनकी माँ का नाम पुतली भाई था।

वे हमारे देश के राष्ट्र पिता हैं।

गांधीजी ने हमें आजादी दिलाई ।

भारत के बारे में कुछ वाक्य लिखो

भारत एक महान और विशाल देश है।

हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है।

इसके दक्षिण में हिन्द महासागर है।

इसके पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है।

हमारे देश में गंगा , यमुना , गोदावरी , ब्रम्हपुत्र, कावेरी जैसे पवित्र नदियां बहती हैं।